

### CIN: L15421MP2011PLC027287 GSTIN: 23AAGCP3350D1ZW

### Parvati Sweetners And Power Limited

Registered Office: Hall No. 2. Shopping Complex, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk, Bhopal- 462003 (MP), Ph. No. 0755 - 4009254, Email: info@parvatisweetners.com

PSPL/SE/PC/2021-22

10<sup>th</sup> August, 2021

Online filing at <u>www.listing.bseindia.com</u>

To, The General Manager DCS-CRD BSE Ltd. Rotunda Building P.J. Tower, Dalal Street, Fort Mumbai – 400001

#### Scrip Code: 541347

#### Symbol: PARVATI

**ISIN: INE295Z01015** 

SUB: SUBMISSION OF PRESS CLIPPING RELATED TO NOTICE OF 06/2021-22 BOARD MEETING.

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A(A) and in compliance of Regulation 47(1)(a) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 regarding publishing of intimation of notice of 06/2021-22 Board Meeting of the company to be held on **Saturday, 14<sup>th</sup> August, 2021 at 03:30 P.M.** at the Registered Office of the Company at Hall No. 2. Shopping Complex, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk, Bhopal - 462003 (MP).

We herewith enclosed the newspaper advertisement published on 09<sup>th</sup> August, 2021 in Business Standard English edition and Business Standard Hindi edition.

You are requested to please take on record our above said information for your reference and record.

Thanking you. Yours faithfully **For, Parvati Sweetners And Power Limited** 

POONAM CHOUKSEY MANAGING DIRECTOR DIN NO.:02110270 Encl. - a/a



For Parvati Sweetners and Power Ltd.

Director/Authorised Signatory

1

NEETNER		
011 <b>PLC027287</b> Hall No. 2. Shor		

Regist Jawahar Chowk, Bhopal- 462003 (MP), Ph. No.: 0755-4236666, 4009254 Email: info@parvatisweetners.com

#### NOTICE

NOTICE pursuant to Regulation 29(1) (a) read with Regulation 47(1) (a) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is hereby given that the Meeting of the Board of directors of the Company will be held on Saturday, the 14th August, 2021 at 03:30 P.M. at the Registered Office of the Company to consider and approve the Standalone Un-Audited Quarterly Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2021. along with other routine business. For further details, please refer the web link-

e co in! & https://w

PA

Place: Bhopal

Date: 07th August, 2021

CIN

NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

E-TENDER NOTICE

Municipal Commissioner, Nagpur Municipal Corporation,

Nagpur invites e-tender from Experienced and Reputed Bidders

for "Collection & Transportation of Construction and Demolition (C&D) Waste and Establishment of C&D Waste

Processing Plant of Capacity 150 TPD on Public-Private-

Partnership (PPP) for Twenty (20) Years Period on Design,

Finance, Built, Own, Operate and Transfer (DFBOOT) basis at

Bhandewadi, Nagpur". The Detailed Tender Notice and bid

Document can be downloaded from website

www.mahatenders.gov.in from 09/08/2021. The sale/purchase

Cent Bank

Home Finance Limited

**Municipal Commissioner** 

Nagpur Municipal Corporation, Nagpur

and submission of the bid document shall be online only.

Advt. No. 123/PR

Dt. 06/08/2021

शेल्ट बेंक

होम फायनेंस लिमिटेड

https://parvatisweetners.co.in/ & https://www.bseindia.com/stock-share price/parvati
sweetners-and-power-ltd/parvati/541347/
For Parvati Sweetners & Power Limited

POONAM CHOUKSEY

#### MANAGING DIRECTOR DIN: 02110270



for Housing and	d Urban Development Corporation Limited
Date: 4 <sup>th</sup> August, 2021	Harish Kumar Sharma
Place: New Delhi	Company Secretary & Compliance Officer

NOTICE UNDER SECTION 13(2), READ WITH SECTION 13(8) and 13(13) OF SARFAESI ACT, 2002 TO BE PUBLISHED IN NEWS PAPER WHEN THE SAME IS RETURNED UNDELIVERED REFUSE TO ACCEPT AND ACKNOWLEDGE Plot No. 1, Near Chittod Complex, Zone -I,

notice is hereby given that the following Borrower/Co-borrower and Guarantors have defaulted in the repayment of principal and interest of the loans facility obtained by them from the Cent Bank Home Finance Limited and the loans have been classified as Non Performing Assets (NPA). The notices were issued to them under Section 13(2) of Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 on their last known addresses, We have indicated our intention of taking possession of mortgaged Property owned by following Borrowers / Guarantors as per section 13(4) of the Act in case of your failure to pay the amoun nentioned below within 60 days. Details are hereunder.

M.P. Nagar, Bhopal -462011,

Ph. No. 0755-2766118, 2766119

S. No	Name of the Borrower/Co-Borrower and Guarantor	Description	of Mortgaged Property	Date of Notice Date of NPA	Outstanding Amount as on Date of NPA
01.	Mr. Dilip Shivhare S/o Late. Mr. Kishan Lai Shivhare, Mrs. Kalpana Agrawal D/o Mr. Rohtash Kumar H-5 , Gold Villa Aakriti ECO City, Bhopal,	1. Duplex House No. K-35 Area : 1419.67 Sq.ft., Boundaries	Khasara No. 400/3/kh, 401, 402, 403, 404/3, 405, 354, 400/3, 401, 402, 403,404/3, 405, Khasara No400/3/2, 401, 402, 403, 404 Khasara No352, 400/3/1, 401, 402, 403,404, 407/1/2/1, 407/2, Khasara No. 407/1/1/2/, Khasara No. 358, 400/3, 401,402,403, 404/3, 405, 400/3/K, 401, 402,403,404, Khasara No. 350, 407/1/1/1,	<u>26.06.2021</u> 08.11.2020	₹ 32,09,655/- + Interest and other Charges ₹
	Duplex House No. K-35, Gokul Dham, Ward No. 68, Badwai, Bhopal - 462037	1247.83 Sq.ft., Boundaries : East: Colony Road, West Boundary Wali, North : Plot No. K-31, South : Plot No. K-29	407/2, Khasara No 407/3, 407/2/, 408 (Part) Situated at village Badwai (Gokuldham) Nagar Nigum Ward No. 68, Tehsil Huzur Distt. Bhopal		<b>30,71,639/-</b> + Interest and other Charges
02.	Mr. Jitendra Vishwakarma, Mrs. Janki Vishwakarma, M/s. Wipeout Cleaners Gulab Colony, Shivaji Ward, District, Sagar- (M.P.) 470002 A/c No. 00203010000051	shwakarma, M/s. Wipeout Cleaners       Floor, SBD Cosmos city, Khasra No. 19/2, Vill. Borda, Tehsil - Huzur,       26.06.2021       7.21,359/-         lab Colony, Shivaji Ward, District,       Distt. Bhopal , Area : 78.99 Sq.Mtr., Boundaries : East : Road, West :       08.02.2021       + Interest and			
pay	steps are being taken for substituted service o rment of outstanding amount within 60 days fr his notice under sub-section (4) of Section 13	om the date of publication of this r	notice, failing which further steps will be take	n after expiry of l	60 days from the date

Place : Bhopal, Date: 07.08.2021

Authorized Officer, Cent Bank Home Finance Ltd., Bhopa



(formerly AXISCADES Engineering Technologies Limited) CIN NO : L72200KA1990PLC084435 Regd. Office : Block C, Second Floor, Kirloskar Business Park, Bengaluru - 560024, Karnataka, India Website : www.axiscades.com, Email : info@axiscades.com, Tel : +91 80 4193 9000, Fax : +91 80 4193 9099 Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2021

**AXISCADES Technologies Limited** 

**AXIS**CADES

Sd/- Sharadhi Chandra Babu Pampapathy, CEO

Particulars	Quarter ended			
	30.06.2021 (Unaudited)	31.03. 2021 (Audited)	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)
Total income from operations	11,480.22	15,199.57	11,062.15	53,830.73
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	334.80	1,230.58	(44.53)	2,997.10
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	335.59	(749.90)	(22.04)	(1,037.94)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	133.19	(1,050.63)	(84.87)	(2,120.55)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and				
Other Comprehensive Income (after tax)]	249.61	(971.25)	99.88	(1,747.07)
Equity Share Capital	1,889.51	1,889.51	1,889.51	1,889.51
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-		Ξ.	27,971.45
Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
1. Basic:	0.32	(2.81)	(0.26)	(5.74)
2. Diluted:	0.30	(2.81)	(0.26)	(5,74)

Notes:

1. In terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the aforesaid Statement of unaudited consolidated fin ancial results for th quarter ended June 30, 2021 of the AXISCADES Technologies Limited (formerly AXISCADES Engineering Technologies Limited) (the "Holding Company" or the "Company") and its subsidiaries (the Holding Company and its subsidiaries together hereinafter referred to as "the Group") and its associate has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on August 7, 2021. The aforesaid consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2021 have been subject to a limited revie by the statutory auditors of the Company.

The unaudited consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the applicable Indian Accou 2. Standards ("Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, as amended read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/44/2019 dated March 29, 2019.

Additional information on Standalone Financial Results is as follows:

Particulars		Quarter ended			
	30.06.2021 (Unaudited)	31.03. 2021 (Audited)	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	
Income from Operations (Turnover)	3,684.72	3,277.92	3,431.61	13,516.58	
Profit before tax	(276.45)	(3,840.08)	(384.84)	(6.415.81)	
Profit after tax	(290.14)	(3,798.21)	(367.52)	(6,324.81)	
4. The above unaudited consolidated financial results of the Company are available on the Con	npany's website (v	www.axiscades.com)	and also on the	website of BSE	

(www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com), where the shares of the Company are listed. For AXISCADES Technologies Limited

Place : Bangalon Date : August, 7, 2021

> EQUITAS SMALL FINANCE BANK LTD equitas

(FORMERLY KNOWN AS EQUITAS FINACNE LTD) Registered Office: No.769, Spencer Plaza, 4th Floor, Phase-II, Anna Salai, Chennai, TN - 600 002. # 044-42995000, 044-42995050 DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTERESTACT. 2002

SECURITY INTERESTACT, 2002 NOTICE is hereby given that the following borrower/s have availed loan from Equitas Housing Finance Limited (EHFL) / Equitas Finance Limited (EFL) / Equitas Small Finance Bank Ltd. In the meantime, M/s Equitas Housing Finance Limited, has amalgamated with M/s Equitas Finance Limited (EFL) / Equitas Small Finance Bank Ltd. In the meantime, M/s Equitas Housing Finance Limited, has amalgamated with M/s Equitas Finance Limited (EFL) / Equitas Small Finance Bank Ltd. In the meantime, M/s Equitas Housing Finance Limited, has amalgamated with M/s Equitas Finance Limited, as per the Scheme of Amalgamation sanctioned by the Hon'ble High Court of Judicature, at Madras, in CP Nos:119 TO 121 OF 2016 vide its order dated 06-06-2016. By virtue of the said amalgamation, all the rights and liabilities of Equitas Housing Finance Limited stands vested in Equitas Finance Limited, was charged to M/s Equitas Small Finance Bank Limited, and the Reserve Bank of India had issued a license dated 30-08-2018 to Equitas Small Finance Bank Limited to carry on the business of banking. The said borrower/s had/have failed to pay Equated Monthly Installments (EMIs) of their Ioan on account of which their Ioan account has been classified as Non-Performing Asset as per the guidelines issued by Reserve Bank of India . The borrower(s) have provided security of the immovable property/ise, the details of which are described herein below. The debunds of the loan and the amounts outstanding and payable by the borrower/s to ESFB as on date are also indicated herein below. The borrower(s) as well as the public in general are hereby informed that the undersigned being the Authorized Officer of ESFB, the secured creditor has initiated action against the following borrower(s) under the provisions of the Security zaito and Recomstruction of Financial Assets and enforcement of Security Interest Act, 2002 (the SARFAESI Act). If the following borrower(s) fail to repay the outstanding dues indicated against their names within 60 (Six

below. Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) (NAME OF THE BRANCH)	Demand Notice Date and Amount	Description of Secured Asset (immovable Property)
Branch : Bina L.No: SEIBBNA0191635 Borrower: BABLU AHIRWAR Co – Borrower: DURGA BAI. B	25-06-2021 & Rs.202195/-	All that piece and parcels of the Land along with Building situated at Village Hiranchhipa P.H.No.52 Kh.No. 82/36 area, 750 Sq.ft. R.N.M. Bina Dist. Sagar. Total Admeasuring Area of 15 x 50 = 750 Sq.ft. And bounded on the: North by: Land of Pre-Seiler, South by: Road, East by: Land of Pre-Seller, West by: Land of Pre-Seller, Mestawarement: 15 x 50=750 Sq.ft, Situated at within the Sub-Registration District of Bina and Registration District of Sagar.
Branch : Anand Nagar L.No: SEANDNR0225099 Borrower: MAAN SINGH Co – Borrower: SUMITRA BAI	25-06-2021 & Rs.194429/-	All that piece and parcel of land and building Situated at Plot, Part of revenue Survey No. 117, Bearing Patwari Halka No. 16, Ward No. 66, Tehsii-Huzur, District-Bhopal, M.P. Total Extento f admeasured Area 20° 30=600 Sq.Ft.And bounded on the: North by: Road, South by: Mr. Nawel Singh, East by: Mr. Khernchand, West by: Road, Measurement: 20° 30= 600 Sq.Ft, Situated at within the Sub - Registration District of Bhopal and Registration District of Bhopal.
Branch : Betul L.No: SEBETUL0168129 Borrower: KUSNA YADAV Co – Borrower: CHHUTTM YADAV	25-08-2021 & Rs.163495/-	All that piece and parcels of Land and Residential House situated at Betul Village Madhai P.H.No.19, Khasra No.283 with in the Gram Panachyat limits of Madahi Garm Pancahayt, Thesil Shahpur and Dist Betul. Total Admessuring Area of 900 Sq.ft. And bounded on the: North by: Abadi Road, South by: Abadi Land, East by: Abadi Land, West by: Abadi Land, Measurement: 900 Sq.ft. Situated at within the Sub-Registration District of Betul and Registration District of Betul.
Branch : Chattarpur L.No: SECTRPR0140252 Borrower: VIMLA DIXIT Co – Borrower: HARI SHANKAR DIXIT	25-06-2021 & Rs.162745/-	All that piece and parcel of land and building, comprised in out of Khasra No-196/2 kha, with an extent of 1500 Sq.ft & 139.405 Sq.mt., Situated at Mauza-Bagota, Halka No-37/50, Teh and District Chhatarpur M.P.And bounded on the: North by: Plot belongs to Mr. Chandrapal Dwivedi, South by: Land belongs to seller, East by: Road, West by: Land belongs to seller, Measurement: 1500 Sq. ft., Situated at within the Sub - Registration District of Sub Registrar Office and Registration District of Chhatarpur.
Branch : Betul L.No: SEBETUL0154436 Borrower: Mrs.Nisha Sahu Co – Borrower: Mr.Prakash Jipure	25-06-2021 & Rs.196969/-	All that Piece and Parcel of land and Building, Plot Residential House, Situated at abadi alnd of Betul yenkheda Khasara/Land Survey No.725, P.H.No.05 With in The Gram Panchayat Area of Yenkheda Tehsil Mulla District Betul Total Admeasuring Area of 871 Sq.ft, bounded on the North by: Road, South by: Road, East by: Temple, West by: House of Parasram, Measuremente: 871 sq.ft. (80.94), Situated within the Sub-Registration District of Betul and Registration District of Betul. Together with all buildings and structure attached to the earth or permanently fastened to anything attached to earth, both present and future and all easamentary / mamool rights annexed thereto.
Branch : Khandwa L.No: SEKHNDW0143462 Borrower: Mrs.Anjana Bai Co – Borrower: Mr.Babu Rathore	25-06-2021 & Rs.163309/-	All that Piece and Parcel of land and Building, Situated at Village Jaswadi P.H.No.92, Tehsil and Dist Khandwa. Total Measuring of area 11x48–528 sq.ft., bounded on the North by: House of Harakchand Ghasiram Rathore, South by: House of Gajanand Ganpat Rathore, East by: Land of Ranjendra Girdhair Rathore, West by: Common Road, Measurement: 11x48–528 sq.ft., Situated within the Sub-Registration District of Khandwa and Registration District of Khandwa. Together with all buildings and structure attached to the earth or permanently fastened to anything attached to earth, both present and future and all easamentary / mamool rights annexed thereto.
Branch : Mandsour L.No: SEINDRE0097426 Borrower: Mr.Ram Singh Gurjar Co – Borrower: Mr.Raju Bai Gurjar Mr.Badrilal Gurjar	25-06-2021 & Rs.179284/-	All that Piece and Parcel of land and building Situated at Village-Rupawali, Ward No. 11, Serial No.87, Tehsil & Dist -Mandsour, Area -2775 Sq.ft, Bounded on the North By: Property of bhagirath, South By: Property of Manglial, East By: Property of Laxmandas, West By: Bazar and Road, Measurement: 75 X 37 =2775 Sq.ft. Situated at within the Sub-Registration District of Mandasour and Registration District of Mandasour. Together with all buildings and structure attached to the earth or permanentify fastened to anything attached to earth, both present and future and all easamentary / mamool rights annexed thereto.
Branch : Uijain L.No: SEUJAIN0158806 Borrower: Mr.Ram Prasad Co – Borrower: Mrs. Lalita Bai	25-06-2021 & Rs.171395/-	All that Piece and Parcel of land and building along With, Situated at-Plot 94, Rudahainda, P.H.No.72, K.H.No.439, Tehsil Ghattiya and District - Ujjain M.P. Total Admeasuring of Area- 60°22=1320 Sq.Ft., and bounded on the North by: House of Mr.Ranchodal, South by: House of Mr.Shankarlal, East by: House of Mr.Nagji Ram, West by: Common Road, Measurement: Total Area 1320.00 Sq.Ft., Situated within the Sub-Registration District of Ujjain and Registration District of Ujjain. Together with all buildings and structure attached to the earth or permanently fastened to anything attached to earth, both present and future and all easamentary / mamool rights annexed thereto.
Branch : Satna L.No: SEIBSNA0252701 Borrower: Mr.Bhagwan Deen Kashyap Co – Borrower: Mr.Vimal bai Gupta	25-06-2021 & Rs.184950/-	All that piece and parcel of land and Building, comprised in out of khasra no.446/2/5 Area 0.008 Hec. with an extent of 915 Sq.ft. or 85.037 Sq.Mt., Situated at Mauza- CHILLA, WARD NO. 03, Patwari Haika No.07 JAITWARA, R.L.Circle JAITWARA, Teh. BIRSINGHPUR, Dist. SATNA (M.P.) bounded as North by: Land belongs to Seller South by: Plot belongs to Uddesh Gupta East by: Plot belongs to Parwal Tripathi West by: Road Situated at within the limits of the Sub- Registration District of Sub Registrar Office and Registration District of Satna- M.P. Together with all buildings and structure attached to the earth or permanently fastened to anything attached to earth, both present and future and all easamentary / mamool rights annexed thereto.
Branch : Chhindwara L.No: SECNDWR0215635 Borrower: Mr.Bani Prajapati Co – Borrower: Mrs Sumathi	16-06-2021 & Rs.501484/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF LAND AND BUILDING SITUATED AT: BAKE MOUJA, VILLAGE- BHAIKOLA, PART OF REVENUE SURVEY NO. 165/1, BEARING P.H. NO, 43/74, TEHSIL & DISTRICT- CHHINDWARA, M.P. TOTAL EXTENT OF AD-MEASURED AREA 30°S0-1 S500 SQ. FT, North by : HOUSE OF SUBHASH, South by: HILL East by : REMAINING LAND OF SELLER Westby : REMAINING LAND OF, SELLER Measurement :30° S0-1500 SQ. FT, Situated at within the Sub-Registration District of, CHHINDWARA and Registration District of CHHINDWARA.Together with all buildings and structure attached to the earth or permanently fastened to anything attached to earth, both present and future and all easamentary/marnool rights annexed thereto.
Branch : Ratlam L.No: SERTLAM0152836 Borrower: Mr.Govindhan Gurjar Co – Borrower: Mrs. Santosh Bai Gurjar	16-06-2021 & Rs.225683/-	All that Piece and Parcel of land and Building, Situated AT-Village UUNI, P.H.No. 50, Tehsil and District -Ratlam M.P.Total admeasuring of area-40*35=1400 sq.ft., bounded on the North by: C.C.Road, South by: House of Dhavarala, East by: C.C.Road, West by: House of Ishwarlal, Measurement: 40*35=1400 sq.ft., Situated within the Sub-Registration District of Ratlam and Registration District of Ratlam. Together with all buildings and structure attached to the earth or permanently fastened to anything attached to earth, both present and future and all easamentary/mamool rights annexed thereto.
Branch : Gulmohar L.No: SEBHOPL0093394 Borrower: Mr. H. Rajesh Chourasiya Co – Borrower: Mrs. Rajkumari Chourasiya Mr. R. Sachin Chourasiya Mr. R. Sandeep Chourasiya	15-07-2021 & Rs.198492/-	All the part and parcel of land House/ Plot No 35, situated at Dwarka Nagar Gram- Chola, Ph No. 21, WardNo. 36, Tehsil Huzur, Distt. Bhopal(M.P)admeaduring total Area is 600 Sq. ft., within the limits of Nagar Nigam Bhopal and Bounded on the East by : Wide Road 15 ft., West by : Property of Seller, North by : Property of Sellar. Measurents : - Under Loan Agreement-Cum-Mortgage of the property Situated at within the jurisdiction of Sub-Registration office Bhopal.
Place : Madhya Pradesh Date : 09-08-2021	1	Authorised Officer, Equitas Small Finance Bank Ltd

GOOD BUSINESS **MORNING!** 

**Business Standard newspaper** delivering safely to homes and offices

For details, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

**Business Standard** 

Insight Out

bsindia 🕥 bsindia

# 2 कंपनी समाचार

## संक्षेप में

## राइट्स इश्यू में शेयरधारकों को भारी छुट देगी केसोराम

बी के बिडला समूह की कंपनी केसोराम इंडस्ट्रीज शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के लिए प्रस्तावित राइट्स इश्यू में बाजार मूल्य से 30 फीसदी या उससे अधिक की भारी छूट की पेशकश कर सकती है। केसोराम ने प्रवर्तक समूह की एक कंपनी को 100 रुपये प्रति शेयर के मुल्य पर 100 करोड रुपये के तरजीही आवंटन और 200 करोड रुपये की राइटस इश्य के जरिये धन जटाने की अपनी योजना में बदलाव किया है। कंपनी ने अब प्रवर्तकों के लिए तरजीही निर्गम को छोड़ने का फैसला किया है और इसके बजाय वह एक बार में 400 करोड़ रुपये की राइट्स पेशकश लाएगी। कुल मिलाकर कंपनी की 500 से 600 करोड़ रुपये जयने की योजना है। भाषा

## एसयूवी मॉडलों के जरिये पैठ भारत में बढाएगी हंडई

हंडई मोटर इंडिया को उम्मीद है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद व्यक्तिगत या निजी वाहनों की मांग बढने के साथ वह घरेलु बाजार में अपनी पहुंच को और मजबूत कर पाएगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही। विशेष रूप से कंपनी अपने एसयूवी मॉडलों के जरिये भारतीय बाजार में पैठ को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। वेन्यू, क्रेटा, टूसों और हाल में पेश अल्काजार मॉडल के साथ हुंडई पहले ही देश के एसयूवी वाहन बाजार को अग्रणी कंपनी बनी हुई है। कंपनी का कहना है कि हर बीतते महीने के साथ एसयुवी बाजार में उसकी हिस्सेदारी बढ रही है। भाषा

# मारुति सुजूकी की बढ़ी चुनौती चाय कंपनियां दर्ज कर सकती हैं बेहतर प्रतिफल

कंपनी का खुद का उत्पादन घटकर एक दशक के निचले स्तर पर रह गया

### कष्ण कांत मुंबई, 8 अगस्त

र्थिक वृद्धि में नरमी और कोविड-19 के प्रभाव की वजह से भारत की सबसे बडी यात्री कार निर्माता मारुति सूजुकी को करीब दो दशकों में अपनी सबसे बडी चनौती का सामना करना पड रहा है। कार निर्माता का वाहन उत्पादन वित्त वर्ष 2021 में लगाातर तीसरे वर्ष गिरावट का शिकार हुआ, जबकि कुल बिक्री कारोबार में लगातार दुसरे वर्ष दबाव देखा गया।

वित्त वर्ष 2021 में कंपनी का वाहन उत्पादन 11 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर दर्ज किया गया, जबकि यात्री वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 2015 के बाद से सबसे कम रही। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष 10.76 लाख वाहनों का निर्माण किया, जो एक साल पहले के 11.71 लाख के आंकडे और वित्त वर्ष 2018 के 16.2 लाख के सर्वाधिक ऊंचे स्तरों से काफी कम है।

कम बिक्री के अनुरूप, कंपनी की शुद्ध बिक्री वित्त वर्ष 2021 में लगातार दूसरे वर्ष प्रभावित हुई, जबकि शुद्ध लाभ लगातार तीसरे वर्ष दबाव में रहा। दो दशकों में यह पहली बार है जब कंपनी ने लगातार दो साल तक आय में गिरावट दर्ज की है। बिक्री में मौजूदा गिरावट भी काफी ज्यादा है। मारुति



सुजुका लाभ–नुकसान खाता वित्त वर्ष 1998-99 से उपलब्ध रहा है और मौजूदा दबाव से पहले कंपनी की शुद्ध बिक्री में सिर्फ दो बार (वित्त वर्ष 2001 और वित्त वर्ष 2012) गिरावट दर्ज की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2021 में कंपनी का वित्तीय अनुपात घटकर करीब दो दशक के सबसे निचले स्तर पर रह गया। कंपनी का नियोजित पुंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) वित्त वर्ष 2020 के 14.3 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2021 में 10.1 प्रतिशत रह गया और वित्त वर्ष 2017 में यह 29 प्रतिशत था। दूसरी तरफ पूंजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्त वर्ष 2020 के 11.8

ऐश्ली कुटिन्हो

मुंबई, 8 अगस्त

फर्मों में घटी है।

1

भारतीय इक्विटी में तेजी के

बीच जून तिमाही में देश की

सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी

भारतीय जीवन बीमा निगम की

हिस्सेदारी एनएसई में सूचीबद्ध

से

फीसदी


प्रतिशत और वित्त वर्ष 2017 के 22.2 प्रतिशत के ऊंचे स्तर से घटकर 8.6 प्रतिशत रह गया।

मारुति सुजूकी ने वित्त वर्ष 2021 में करीब 14.58 लाख वाहन बेचे, जो सालाना आधार पर 6.7 प्रतिशत कम और वित्त वर्ष 2017 के बाद से सबसे कम है। इसमें करीब 30,000 हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) भी शामिल हैं। एलसीवी बाजार में कंपनी ने वित्त वर्ष 2017 में प्रवेश किया था। एलसीवी को छोड़कर, यात्री वाहनों की बिक्री 14.28 लाख वाहन रही जो वित्त वर्ष 2015 से सबसे कम है। वित्त वर्ष 2015 में कंपनी ने 12.92 लाख यात्री वाहन बेचे थे।

 कंपनी को कार खरीदारी की लागत बढ़ने से बिक्री में बड़ी गिरावट की आशंका है

- वित्त वर्ष 2021 में कंपनी का वाहन उत्पादन ११ वर्षों में सबसे निचले स्तर पर दर्ज किया गया
- यात्री वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 2015 के बाद से सबसे कम रही
- कम बिक्री के अनुरूप, कंपनी की शुद्ध बिक्री वित्त वर्ष 2021 में
- लगातार दूसरे वर्ष प्रभावित हुइ शुद्ध लाभ लगातार तीसरे वर्ष
- दबाव में रहा

हालांकि वाहन उत्पादन में बडी कमजोरी दर्ज की गई थी, क्योंकि कंपनी अब अपनी बिक्री का बड़ा हिस्सा गुजरात में अपनी मूल निर्माण इकाई से आउटसोर्स करती है। स्वयं के निर्माण का योगदान वित्त वर्ष 2021 में मारुति सुजुकी की कुल बिक्री में करीब 74 प्रतिशत रहा जो वित्त वर्ष 2020 के 75 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2019 के 84 प्रतिशत से कम है। इस निर्माण में और कमजोरी आने का अनुमान है, क्योंकि सुजूकी मोटर गुजरात ने अब अपनी उत्पादन क्षमता बढा़कर 7.5 लाख वाहन की है, जो मारुति सुजुकी की स्वयं की निर्माण क्षमता के करीब आधे के बराबर है।



पिछले साल अधिक दामों के दम पर प्रमुख चाय कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि पिछले डेढ़ महीने के दौरान दामों में गिरावट के मद्देनजर चाय कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई हैं।

2019 के स्तर से अधिक हैं।

30 (जुलाई के अंतिम सप्ताह में

आयोजित) तक नीलामी का

औसत 234.85 रुपये प्रति

कोलकाता में वर्ष 2020-21 में

यह 277.77 रुपये प्रति

किलोग्राम और वर्ष 2019-20 में

191.76 रुपये प्रति किलोग्राम

था। चाय के दामों में तेजी की

जबकि

किलोग्राम रहा,

सकता है।

की संभावना है।

प्रतिकूल मौसम की वजह से पिछले साल चाय के दामों फसल को हुए नुकसान के कारण में तेजी की वजह से पिछले साल को तुलना में इस कंपनियों ने कम वॉल्यम साल दाम अधिक बने रहने से पर भी दर्ज किया था ज्यादा चाय के दामों की अच्छी शुरुआत मुनाफा, लेकिन जून से हई थी। हालांकि जून के मध्य के नजर आई दामों में गिरावट बाद दामों में गिरावट आने लगी। का पड़ सकता है मार्जिन अलबत्ता उत्तर भारत की चाय पर असर (जिसका कुल उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक योगदान रहता है) के संबंध में दाम अब भी वर्ष

रह सकती हैं। दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2020 में कंपनियों के जे थॉमस वेबसाइट पर समान उदाहरण में एबिटा मार्जिन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सेल 3.8 प्रतिशत था।

उद्योग के लिए साल की शुरुआत स्थिर रही। पिछले साल कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी की वजह से उपज में 13 करोड़ से 13.5 करोड़ किलोग्राम का हुआ नुकसान निर्यात और घरों से बाहर की खपत के नुकसान से पुरा हो गया था। हालांकि घरों में होने वाली खपत बढ़ गई थी।

वजह से कम वॉल्यूम के बावजूद पिछले साल कंपनियों ने अधिक मैकलॉयड रसेल इंडिया के मुनाफा दर्ज किया था। लेकिन पूर्णकालिक निदेशक आजम जून से देखी जा रही कीमतों में मोनेम ने कहा 'जब हमने सत्र का गिरावट का असर मार्जिन पर पड आगाज किया, तो बाजार काफी मजबत था और दाम पिछले साल के मुकाबले ज्यादा थे क्योंकि इक्रा के उपाध्यक्ष कौशिक

दास ने कहा कि उदाहरण के कोई पिछला स्टॉक नहीं था।' मोनेम ने कहा 'भीषण सुखे लिए (इसमें उत्तर भारत में बागान वाली कंपनियां भी शामिल की वजह से अप्रैल और मई में हैं) वित्त वर्ष 21 में संगठित चाय फसल का काफी नुकसान नजर आया और दाम बढ गए। लेकिन कंपनियों का एबिटा मार्जिन 12 प्रतिशत था। दामों में मौजुदा रुख मई के आखिर और जून की को देखते हुए वित्त वर्ष 22 में शुरुआत में असम में काफी एबिटा मार्जिन नौ प्रतिशत रहने ज्यादा बारिश हुई और फसल में इजाफा हुआ।' असम के मामले में जून सबसे अच्छी गुणवत्ता

लेकिन फिर भी कंपनियां पिछले सालों की तुलना में बेहतर वाला महीना होता है।

### लोढ़ा समूह ने चार संयुक्त उद्यम बनाए

लोढ़ा ब्रांड नाम से संपत्तियों की बिक्री करने वाली मैक्रोटेक डेवलपर्स ने अप्रैल से जन की तिमाही के दौरान 3,500 करोड़ रुपये के बिक्री मल्य की परियोजनाओं के निर्माण के लिए चार संयुक्त उद्यमों का गठन किया है। कंपनी मुंबई और पुणे क्षेत्रों में अपनी पहुंच के विस्तार के लिए प्रत्येक तिमाही में इस तरह के दो गठजोड़ की योजना बना रही है।

मुंबई की कंपनी मैक्रोटेक (पूर्व में लोढ़ा डेवलपर्स) देश की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में से है। 2,500 करोड रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के बाद अप्रैल में यह कंपनी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हुई है। मैक्रोटेक डेवलपर्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी अभिषेक लोढा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजद वह आवास क्षेत्र की वृद्धि की संभावनाओं को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा, हम भविष्य की वृद्धि के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) और पुणे में विस्तार करना चाहते हैं।

#### टाटा कैपिटल फाईनाशियल सर्विसेस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11र्थी, मंजिल, टॉक्र ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदन मार्ग, लोवर परेल, ईएन नं.: U67190 400013.सीः कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार] जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एर पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने वे नाते नीचे उल्लिखित के अनुसार कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना गं उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 14 सितम्बर, 2018 को एक माँग सूचना निर्गत की। ऋणकर्ता द्वारा राशि के पनर्भगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से ऋणकर्ताओं तथा जनसामान्य व एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कथित नियमों के नियम के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर लिया है। व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावर दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नीचे सन्दर्भित राशि तथा उस पर ब्याज, दण्डात्मव ब्याज, प्रभारों, लागतों आदि के लिए टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अभियोग का विषय होगा। दायित्वधारी( यों )/विधिक उत्तराधिकारी( यों )/विधिक माँग सूचना के अनुस क्र. ऋण खाता कब्जा करने प्रतिनिधि(यों) के नाम की तिथि . राशि मैसर्स श्री साई कृपा सिक्योरिटी सर्विसेज, इसके प्रोपराइट 27.02.2021 तक 20506603 4 अगस्त, 202 श्री प्रमोद कमार पटेल. (2) श्री प्रमोद कमार पटेल. (3) रू. 30.24.968.89/-श्रीमती उषा प्रमोद कुमार पटेल, पता : फ्लैट नं, जी-2, प्लॉट (रुपये तीस लाख चौर्ब नं. 201, अमरदीप कॉम्पलेक्स, सी-सेक्टर, इन्द्रापुरी, भोपाल, हजार नौ सौ अड्सठ एव नवासी पैसे मात्र मध्य प्रदेश 462001. साथ ही : डाइवर्टेड प्लॉट नं. 4. राजस्व सर्वेक्षण सं. 292/2/2/2, ग्राम खजूरी कलां, तहसील हुजूर, मांग सूचना की तिथि भोपाल. मध्य प्रदेश-462001 **27 फरवरी**, 2021 **सम्पत्ति का विवरण** : डाइवर्टेंड प्लॉट नं. 4, माप 2445 वर्ग फीट, राजस्व सर्वेक्षण सं. 292/2/2/2 का सम्पूर्ण भाग, ग्रा खजूरी कलां, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश, जिसकी सीमाएँ हैं : दक्षिण : पुनीत वर्मा की भूमि, उत्तर : सड़क, पूर्व श्रीमती मोना की भूमि, पश्चिम : श्रीमती सोना देवी की भूमि। 7624035 1) श्री अरुणेन्द्र आनन्द मिश्रा, 2) श्री महेन्द्र प्रसाद मिश्रा, 3) 13.05.2021 तक 4 अगस्त, 2021 मैसर्स आनन्द कंस्ट्रक्शन कम्पनी, इसके पार्टनर श्री अरुणे रु. 46.83.016.80/-मिश्रा के माध्यम से, पता : म.नं. 09, अयोध्या बाईपास रोड रुपये छियालीस लाख सन्तोषी विहार नगर, निकट एसबीआई बैंक, अयोध्या नग रासी हजार सोलह एव भोपाल, मध्य प्रदेश-462001, साथ ही पता :भूमि खसरा न अस्सी पैसे मात्र) 168/1/2/2 का भाग (कम्प्यटरीकत खसरा नं, 168/घ), ग्राम माँग सचना तिथिः खजूरी कलां, पी.एच. नं. 39, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, 14, मई, 2021 मध्य प्रदेश- 462001



ज्यादा हिस्सेदारी वाली 295 कंपनियों में एलआईसी का हिस्सा मार्च तिमाही में रहा 3.83 फीसदी से घटकर 3.74 फीसदी रह गया। प्राइमइन्फोबेस डॉट कॉम के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। हुई होगी। जून 2012 की तिमाही में

एलआईसी की हिस्सेदारी हालांकि 5 फीसदी के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी। एफपीआई या एमएफ की तरह देसी शेयरों को आगे बढ़ाने के लिए बीमा कंपनियां नही जानी जाती, लेकिन विगत में

उसने बाजार को बडी गिरावट से

बचने में मदद की है। एलआईसी

की अगुआई में देसी बीमा

routine husiness

की जाएगी।

For further details, please refer the web link-



आई गिरावट के बीच आकर्षक मुल्यांकन का फायदा उठाया था। उच्च मूल्यांकन और इस साल बाजार में लगातार आई तेजी से बीमा कंपनी शायद कुछ मुनाफावसूली के लिए प्रोत्साहित

प्राइम डेटाबेस के प्रबंध निदेशक प्रणव हल्दिया ने कहा. पिछली दो तिमाहियों से एलआईसी मुनाफावसूली कर रही है। वैल्यू के लिहाज से 30 जन को एलआईसी की हिस्सेदारी 8.43 लाख करोड़ रुपये की थी, जो पिछली तिमाही के मकाबले 9.88 फीसदी ज्यादा है, जिसकी वजह बाजार में आई तेजी है। कई

आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक शामिल है। इसके अलावा आरआईएल, टेक महिंद्रा और मारुति सुजूकी के शेयर सबसे ज्यादा खरीदे। पिछली तिमाही में एनएसई में सुचीबद्ध 76 कंपनियों में एलआईसी की हिस्सेदारी बढी।

इस अवधि में इन कंपनियों के शेयरों की कीमतें औसतन 16.7 फीसदी बढ़ी। 91 कंपनियों में उसकी हिस्सेदारी घटी, जिसकी औसत कीमतें इस दौरान 26.5 फीसदी बढी। प्राइमइन्फोबेस डॉट कॉम के आंकडों से यह जानकारी मिली।

एलआईसी ने सबसे ज्यादा बेचे

एसबीआई.

उसने

सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनी, अन्य बीमा कंपनियों की तरफ से हो रहे निवेश में बड़ी हिस्सेदारी बनाए हुए है और उसकी हिस्सेदारी 76 फीसदी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी,

<ul> <li>शर्मा, 3) श्री हिमांशु अमिताभ शर्मा (मृत), 4) अमित इंजीनियरिंग इकियपमेंट्स, इसके प्रोपराइटर श्री अमिताभ कृपादेव शर्मा के माध्यम से)</li> <li>सभी के पता : 90 गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452001, साथ ही : प्लॉट/मकान नं. 82, न्यू प्लॉट नं. 91, गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452001</li> <li>माँग सुवना तिथि: 21 मई, 2021</li> <li>माँग सुवना तीथ: 21 मई, 2021</li> <li>माँग सुवना की सेतन्म, दक्षिण : प्लॉट/मकान नं. 91एल, गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश (होनी रोड, पश्चिम : बैक लेन, दक्षिण : प्लॉट/मकान नं. 83, उत्तर : प्लॉट/मकान नं. 81</li> <li>7659035</li> <li>भी चेतन राठौर, 2) श्रीमती कुसुम राठौर, 3) श्री महेन्द्र 20 मई, 2021 तक 31 श्री चेतन राठौर, 2) श्रीमती कुसुम राठौर, 3) श्री महेन्द्र 7. 1,35,10,465.00/- के माध्यम से, 5) मैसर्स अपना स्वागा मैरिज गाई, इसके प्री टतर के माध्यम से, सभी का पता : 5/4 उत्तर राजमोहल्ला, एरिय एक करोइ पैंतीस पार्टनर के माध्यम से, सभी का पता : 5/4 उत्तर राजमोहल्ला, माँग सुचना की तिथि : संरिपुर, इन्दीर-452002, साथ ही पता : डाइवर्टेड पूर्मि माँग सुचना की तिथि : सरियुर, इन्दीर-45201, साथ ही पता : ट/० अजब गजब 21 मई, 2021</li> </ul>	3. 70		का भाग, उत्तर : सर्वे/खसरा नं. 168 की भूमि का भाग 1) श्री अमिताभ कृषादेव शर्मा, 2) श्रीमती वन्दना अमिताभ	20 मई, 2021 तक	6 अगस्त. 2021
इंजीनियरिंग इक्विपसेंट्स, इसके प्रोपराइटर श्री अमिताभ कृपादेव शर्मा के माध्यम से)       रु. 94,69,288.00/- (रुपये चौरानबे लाख उनहत्तर हजार दो सौ प्रदेश-452001, साथ ही : प्लॉट/मकान नं. 82, न्यू प्लॉट नं. 91, गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452001, साथ ही : प्लॉट/मकान नं. 82, न्यू प्लॉट नं. 91, गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452001       उनहत्तर हजार दो सौ अट्ठाइंस मात्र)         प्रांत का विवरण : प्लॉट/मकान नं. 82, नया प्लॉट/मकान नं. 91एल, गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश- 201 का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 1500 वर्गफोट साथ ही उस पर निर्मित संरचना तथा सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्व (लोनी रोड, पश्चिम : बैक लेन, दक्षिण : प्लॉट/मकान नं. 83, उत्तर : प्लॉट/मकान नं. 81         .       7659035       1) श्री चेतन राठौर, 2) श्रीमती कुसुम राठौर, 3) श्री महेन्द्र राठौर, 4) मैसर्स अजब गजब फूड प्रोडक्टर, इसके प्रोपराइटर के माध्यम से, 5) मैसर्स अपना स्वागा मैरिज गार्ड, इसके पार्टनर के माध्यम से, सभी का पता : 5/4 उत्तर राजमोहल्ला, के लाश्य मार्ग, इन्दौर 442002, साथ ही पता : डाइवटेंड पूर्मि पार्हवस हजार चार सौ केलाश मार्ग, इन्दौर 442002, साथ ही पता : ट/० अजब गजब पृष्ठियामी/दक्षिणी भाग सर्वे सं. 309/3 तथा 309/4, ग्राम संरियुर, इन्दौर-452001, साथ ही पता : ट/० अजब गजब फूड प्रोडक्टस, धार रोड, सामने जिला अस्पताल, इन्दौर       21 मई, 2021	5. 70	00790			0 011111, 2021
<ul> <li>कृपादेव शर्मा के माध्यम से) सभी के पता : 90 गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452001, साथ ही : प्लॉट/मकान नं. 82, न्यू प्लॉट नं. 91, गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452001</li> <li>या सिं, 2021</li> <li>याति का दिवरण : प्लॉट/मकान नं. 82, नया प्लॉट/मकान नं. 91एल, गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452001</li> <li>याति का दिवरण : प्लॉट/मकान नं. 82, नया प्लॉट/मकान नं. 91एल, गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452001</li> <li>याति का दिवरण : प्लॉट/मकान नं. 82, नया प्लॉट/मकान नं. 91एल, गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452001</li> <li>याति का दिवरण : प्लॉट/मकान नं. 82, नया प्लॉट/मकान नं. 91एल, गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश</li> <li>(201 का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 1500 वर्गफोट साथ ही उस पर निर्मित संप्रचना तथा सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्व (लोनी रोड, पश्चिम : बैक लेन, दक्षिण : प्लॉट/मकान नं. 83, उत्तर : प्लॉट/मकान नं. 81</li> <li>7659035</li> <li>१) श्री चेतन राठीर, 2) श्रीमती कुसुम राठीर, 3) श्री महेन्द्र राठौर, 4) मैसर्स अजब गजब फूड प्रोडक्टर, इसके प्रोपशइटर के माध्यम से, S) मैसर्स अपना स्वागा मैरिज गार्ड, इसके पार्टनर के माध्यम से, सभी का पता : 5/4 उत्तर राजमोहल्ला, लंसाक्ष मार्ग, इन्दौर 452002, साथ ही पता : डाइवटॅंड भूमि पश्चिमी/दक्षिणी भाग सर्वे सं. 309/3 तथा 309/4, ग्राम संरीएपु, इन्दौर-452001, साथ ही पता : ट/० अजब गजब कृड प्रोडक्टस, धार रोड, सामने जिला अस्पताल, इन्दौर</li> </ul>					
सभी के पता : 90 गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452001, साथ ही : प्लॉट/मकान नं. 82, न्यू प्लॉट नं. 91, गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452001 माँग सूचना तिथि: 21 मई, 2021 यति का विवरण : प्लॉट/मकान नं. 82, नया प्लॉट/मकान नं. 91एल, गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश 2001 का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट साथ ही उस पर निर्मित संरचना तथा सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्व लिनि रोड, पश्चिम : बैंक लेन, दक्षिण : प्लॉट/मकान नं. 83, उत्तर : प्लॉट/मकान नं. 81 . 7659035 1) श्री चेतन राठौर, 2) श्रीमती कुसुम राठौर, 3) श्री महेन्द्र राठौर, 4) मैसर्स अजब गजब फूड प्रोडक्टर, इसके प्रोपराइटर के माध्यम से, S) मैसर्स अपना स्वागा मैरिज गार्ड, इसके पार्टनर के माध्यम से, सभी का पता : 5/4 उत्तर राजमोहल्ला, कैलाश मार्ग, इन्दौर 452002, साथ ही पता : डाइवर्टेंड भूमि संरियुर, इन्दौर-452001, साथ ही पता : ट/o अजब गजब फूड प्रोडक्ट्स, धार रोड, सामने जिला अस्पताल, इन्दौर					
प्रदेश-452001, साथ ही : प्लॉट/मकान नं. 82, न्यू प्लॉट नं. 91, गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452001 माँग सूचना तिथि: 21 मई, 2021 पाति का विवरण : प्लॉट/मकान नं. 82, नया प्लॉट/मकान नं. 91एल, गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश 2001 का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट साथ ही उस पर निमिंत संरचना तथा सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्व लोनी रोड, पश्चिम : बैक लेन, दक्षिण : प्लॉट/मकान नं. 83, उत्तर : प्लॉट/मकान नं. 81 7659035 1) श्री चेतन राठौर, 2) श्रीमती कुसुम राठौर, 3) श्री महेन्द्र राठौर, 4) मैसर्स अजब गजब फूड प्रोडक्ट्स, इसके प्रोपराइटर के माध्यम से, 5) मैसर्स अपना स्वागा मैरिज गार्ड, इसके पाठैनर के माध्यम से, सभी का पता : 5/4 उत्तर राजमोहल्ला, लेक्ताश मार्ग, इन्दौर 452002, साथ ही पता : डाइवर्टेड पूर्मि संरियुर, इन्दौर-452001, साथ ही पता : ट/o अजब गजब फूड प्रोडक्ट्स, धार रोड, सामने जिला अस्पताल, इन्दौर					
91, गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452001         माँग सूचना तिथि: 21 मई, 2021           स्मति का विवरण : प्लॉट/मकान नं. 82, नया प्लॉट/मकान नं. 91एल, गांधी पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश 2001 का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट साथ ही उस पर निर्मित संरचना तथा सीमाएँ निन्नलिखित हैं : पूर्व (लोनी रोड, पश्चिम : बैक लेन, दक्षिण : प्लॉट/मकान नं. 83, उत्तर : प्लॉट/मकान नं. 81           7659035         1) श्री चेतन राठौर, 2) श्रीमती कुसुम राठौर, 3) श्री महेन्द्र राठौर, 4) मैसर्स अजव गजब फूड ग्रोडवर्ट्स, इसके ग्रोपराइटर के माध्यम से, 5) मैसर्स अपना स्वागा मैरिज गार्ड, इसके पार्टनर के माध्यम से, सभी का पता : 5/4 उत्तर राजमोहल्ला, लाखदस हजार चार सौ मैंतपुरा, इन्दौर 452002, साथ ही पता : डाइवर्टेंड पूमि संरियुरा, इन्दौर 452002, साथ ही पता : ट/० अजब गजब स्तिपुरा, दिर्ग-45-45-45 से त. 21 मई, 2021 फूड प्रोडक्ट्स, धार रोड, सामने जिला अस्पताल, इन्दौर					
यति का विवरण : प्लॉट/मकान नं. 82, नया प्लॉट/मकान नं. 91एल, गांधों पार्क, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, मध्य प्रदेश 2001 का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट साथ ही उस पर निर्मित संरचना तथा सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्व (लोनी रोड, पश्चिम : बैक लेन, दक्षिण : प्लॉट/मकान नं. 83, उत्तर : प्लॉट/मकान नं. 81 . 7659035 1) श्री चेतन राठौर, 2) श्रीमती कुसुम राठौर, 3) श्री महेन्द्र 20 मई, 2021 तक राठौर, 4) मैसर्स अजब गजब फूड प्रोडक्ट्स, इसके प्रोपराइटर रु. 1,35,10,465.00/- के माध्यम से, 5) मैसर्स अपना स्वागा मैरिज गार्ड, इसके पार्टनर के माध्यम से, सभी का पता : 5/4 उत्तर राजमोहल्ला, लाखदस हजार चार सौ कैलाश मार्ग, इन्दौर 452002, साथ ही पता : डाइवर्टेड भूमि पश्चिमी/दक्षिणी भाग सर्वे सं. 309/3 तथा 309/4, ग्राम सीरपुर, इन्दौर-452001, साथ ही पता : C/o अजब गजब वाक्ष 21 मई, 2021 फूड प्रोडक्ट्स, धार रोड, सामने जिला अस्पताल, इन्दौर				माँग सूचना तिथिः	
2001 का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट साथ ही उस पर निर्मित संरचना तथा सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्व लोनी रोड, पश्चिम : बैक लेन, दक्षिण : प्लॉट/मकान नं. 83, उत्तर : प्लॉट/मकान नं. 81 . 7659035 1) श्री चेतन राठौर, 2) श्रीमती कुसुम राठौर, 3) श्री महेन्द्र 20 मई, 2021 तक राठौर, 4) मैसर्स अजब गजब फूड प्रोडक्ट्स, इसके प्रोपराइटर रु. 1,35,10,465.00/- के माध्यम से, 5) मैसर्स अपना स्वागा मैरिज गार्ड, इसके (रुपये एक करोड़ पैंतीस पार्टनर के माध्यम से, सभी का पता : 5/4 उत्तर राजमोहल्ला, लाखदस हजार चार सौ कैलाश मार्ग, इन्दौर 452002, साथ ही पता : डाइवर्टेड भूमि मेरिच मात्र) पश्चिमी/दर्श्वणी भाग सर्वे सं. 309/3 तथा 309/4, ग्राम सौरपुर, इन्दौर-452001, साथ ही पता : C/o अजब गजब फूड प्रोडक्ट्स, धार रोड, सामने जिला अस्पताल, इन्दौर			A Line sector in the sector in	21 मई, 2021	
2001 का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट साथ ही उस पर निर्मित संरचना तथा सीमाएँ निम्नलिखित हैं : पूर्व लोनी रोड, पश्चिम : बैक लेन, दक्षिण : प्लॉट/मकान नं. 83, उत्तर : प्लॉट/मकान नं. 81 . 7659035 1) श्री चेतन राठौर, 2) श्रीमती कुसुम राठौर, 3) श्री महेन्द्र 20 मई, 2021 तक राठौर, 4) मैसर्स अजब गजब फूड प्रोडक्ट्स, इसके प्रोपराइटर रु. 1,35,10,465.00/- के माध्यम से, 5) मैसर्स अपना स्वागा मैरिज गार्ड, इसके (रुपये एक करोड़ पैंतीस पार्टनर के माध्यम से, सभी का पता : 5/4 उत्तर राजमोहल्ला, लाखदस हजार चार सौ कैलाश मार्ग, इन्दौर 452002, साथ ही पता : डाइवर्टेड भूमि मेरिच मात्र) पश्चिमी/दर्श्वणी भाग सर्वे सं. 309/3 तथा 309/4, ग्राम सौरपुर, इन्दौर-452001, साथ ही पता : C/o अजब गजब फूड प्रोडक्ट्स, धार रोड, सामने जिला अस्पताल, इन्दौर	प्रम्पत्ति व	<b>हा विव</b> र	ण : प्लॉट/मकान नं. 82, नया प्लॉट/मकान नं. 91एल, गांध	ो पार्क, रेडियो कॉलोनी, इ	न्दौर, मध्य प्रदेश-
. 7659035 1) श्री चेतन राठौर, 2) श्रीमती कुसुम राठौर, 3) श्री महेन्द्र 20 मई, 2021 तक 6 अगस्त, 202 राठौर, 4) मैसर्स आजब गजब फूड प्रोडक्ट्स, इसके प्रोपराइटर के माध्यम से, 5) मैसर्स अपना स्वागा मैरिज गार्ड, इसके पार्टनर के माध्यम से, सभी का पता : 5/4 उत्तर राजमोहल्ला, लाखदस हजार चार सौ कैलाशा मार्ग, इन्दौर 452002, साथ ही पता : डाइवटेंड भूमि पैंसठ मात्र) पश्चिमी/दक्षिणी पाग सबें से. 309/3 तथा 309/4, ग्राम सीरपुर, इन्दौर-452001, साथ ही पता : ८/० उजन गजब फूड प्रोडक्ट्स, धार रोड, सामने जिला अस्पताल, इन्दौर					
राठौर, 4) मैसर्स आजब गजब फूड प्रोंडक्ट्स, इसके प्रोपराइटर रु. 1,35,10,465.00/- के माध्यम से, 5) मैसर्स अपना स्वागा मैरिज गार्ड, इसके पार्टनर के माध्यम से, सभी का पता : 5/4 उत्तर राजमोहल्ला, कैलाशा मार्ग, इन्दौर 452002, साथ ही पता : डाइवटेंड भूमि पैंसठ मात्र) पश्चिमी/दक्षिणी पाग सर्वे सं. 309/3 तथा 309/4, ग्राम सीरपुर, इन्दौर-452001, साथ ही पता : ट/० अजब गजब फूड प्रोडक्ट्स, धार रोड, सामने जिला अस्पताल, इन्दौर	कॉलोनी रे	ोड, पश्चि	वम : बैक लेन, दक्षिण : प्लॉट/मकान नं. 83, उत्तर : प्लॉट/मव	जन नं. 81	
के माध्यम से, 5) मैसर्स अपना स्वागा मैरिज गार्ड, इसके पार्टनर के माध्यम से, सभी का पता : 5/4 उत्तर राजमोहल्ला, लाखदस हजार चार सौ कैलाश मार्ग, इन्दीर 452002, साथ ही पता : डाइवरेंड भूमि पैंसठ मात्र) पश्चिमी/दक्षिणी भाग सर्वे सं. 309/3 तथा 309/4, ग्राम माँग सूचना की तिथि : सीरपुर, इन्दीर-452001, साथ ही पता : C/o अजव गजव फूड प्रोडक्ट्स, धार रोड, सामने जिला अस्पताल, इन्दौर	4. 76	59035			6 अगस्त, 2021
पार्टनर के माध्यम से, सभी का पता : 5/4 उत्तर राजमोहल्ला, लाखदस हजार चार सौ कैलाश मार्ग, इन्दौर 452002, साथ ही पता : डाइवरेंड भूमि पैंसठ मात्र) पश्चिमी/दक्षिणी भाग सर्वे सं. 309/3 तथा 309/4, ग्राम माँग सूचना की तिथि : सीरपुर, इन्दौर-452001, साथ ही पता : C/o अजब गजब 21 मई, 2021 फूड प्रोडक्ट्स, धार रोड, सामने जिला अस्पताल, इन्दौर			राठौर, 4) मैसर्स अजब गजब फूड प्रोडक्ट्स, इसके प्रोपराइटर	रु. 1,35,10,465.00/-	
कैलाश मार्ग, इन्दौर 452002, साथ ही पता : डाइवरेंड भूमि पैंसठ मात्र) पश्चिमी/दक्षिणी भाग सर्वे सं. 309/3 तथा 309/4, ग्राम माँग सूचना की तिथि : सीरपुर, इन्दौर-452001, साथ ही पता : C/o अजब गजब 21 मई, 2021 फूड प्रोडक्ट्स, धार रोड, सामने जिला अस्पताल, इन्दौर			के माध्यम से, 5) मैसर्स अपना स्वागा मैरिज गार्ड, इसके	(रुपये एक करोड़ पैंतीस	
पश्चिमी/दक्षिणी भाग सर्वे सं. 309/3 तथा 309/4, ग्रोम माँग सूचना की तिथि : सीरपुर, इन्दौर-452001, साथ ही पता : C/o अजब गजब 21 मई, 2021 फूड प्रोडक्ट्स, धार रोड, सामने जिला अस्पताल, इन्दौर			पार्टनर के माध्यम से, सभी का पता : 5/4 उत्तर राजमोहल्ला,	लाखदस हजार चार सौ	
सीरपुर, इन्दौर–452001, साथ ही पता : C/o अजब गजब 21 मई, 2021 फूड प्रोडक्ट्स, धार रोड, सामने जिला अस्पताल, इन्दौर					
फूड प्रोडक्ट्स, धार रोड, सामने जिला अस्पताल, इन्दौर					
				21 मई, 2021	
452002 उग्र ही पता र सामने जिला अस्पताल शार सेत					
			452002, साथ ही पता : सामने जिला अस्पताल, धार रोड,		
इन्दौर-452002			इन्दौर-452002		
	)9/1, उ	त्तरः भूष	न्द्र राठौर की भूमि, दक्षिण : सड़क।		
19/1, उत्तर : भूपेन्द्र राठौर की भूमि, दक्षिण : सड़क।	तेशि ।	o .211	E 2021	ट / <del>2</del> 18	कत पाशिकारी
थि : 9 अगस्त, 2021 ह.⁄- अधिकृत प्राधिकार्य	स्थानः	मापाल		"There are a second to the last to the second to the secon	Additional and an accession to be said
			एम.	जा. राड, इन्दार, मध्य	प्रदश-452001

https://parvatisweetners.co.in/ & https://www.bseindia.com/stock-share\_price/parvat tps://parvatisweetners.co.m/ contreen/source veetners-and-power-ltd/parvati/541347/ For Parvati Sweetners & Power Limited Sd/ Place: Bhopal Date: 07th August, 2021

दिलीप	ৰিল্ভ	कॉन	लिमिटेड
ত্রীয়ে	र्षिणनः । <b>4520</b>	1MP2006PLC	019690

पंजीकृत कार्यालयः प्लाट नं. 5, गोविंद नारायण सिंह गेट के अंदर, चना भटटी, कोलार रोड, भोपाल-462016, मध्य प्रदेश ईमेलः db@dilipbuildcon.co.in; वेबसाइट: www.dilipbuildcon.com फोन: +91 755 4029999: फैक्स: +91 755 4029998

#### सूचना

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 व 30 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अन्य विषयों के साथ निम्नलिखित मामलों पर विचार हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अर्थात प्लाट नारायण सिंह गेट के अंदर, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल (मध्य प्रदेश)- 462016 में शनिवार, 14 अगस्त, 2021 को आयोजित होना अनुसूचित हैः

ONLIMITED

मद सं.	कार्य-सूची के मद					
1.	30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित इंड एएस एकल और समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन।					
2.	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए निदेशक मंडल द्वारा यथाअनुशंसित अंतिम लाभांश प्राप्ति के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारण प्रयोजन हेतु					
	कंपनी के सदस्य रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बही की बंदी पर विचार और अनुमोदन।					
3.	विडियो कान्फ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित होने वाली 15वीं वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय पर विचार					
	और निर्धारण, वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस, बोर्ड की रिपोर्ट का अनुमोदन और अन्य संबंधित मामले।					
4.	और अधिक शेयरों के निर्गम के प्राधिकार पर विचार और अनुमोदन।					
5.	निजी प्लेसमेंट आधार पर गैर–परिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गम पर विचार और अनुमोदन।					
6.	निजी प्लेसमेंट आधार पर वाणिज्यिक पत्र के निर्गम पर विचार और अनुमोदन।					
7.	अध्यक्ष की अनुमति और निदेशकों की बहुमत सहमति के साथ अन्य किसी मामले पर विचार।					
यह भी सूचित किया जाता है कि अनाधिकृत ट्रेडिंग निषेध की कंपनी की आचार—संहिता और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनाधिकृत ट्रेडिंग निषेध)						
विनियमावल	ी, 2015 समय—समय पर यथासंशोधित, के अनुसार कंपनी के प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह, निदेशकों, केएमपी, पदनामित कर्मचारियों, विनिर्दिष्ट					
व्यक्तियों, ज	उनके सगे संबंधियों और संबंधित व्यक्तियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन—देन के लिए ट्रेडिंग विंडो 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के					
लिए वित्तीय	। परिणामों की घोषणा की तारीख से 48 घंटों तक पहले से बंद है।					
कंपनी की	वेबसाइट http://www.dilipbuildcon.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात http://www.bseindia.com और					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

http://www.nseindia.com पर भी यह सचना उपलब्ध है। हिते दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड

	हस्ता. /
स्थानः भोपाल	अभिषेक श्रीवास्तव
<b>विनांकः 07.08.2021</b>	कंपनी सचिव

कंपनियों ने पिछले साल मार्च व कंपनियों में एलआईसी का अप्रैल में इक्विटी खरीद बढ़ाई स्वामित्व पिछली तिमाही के एलआईसी में यूलिप के प्रीमियम थी और इस तरह से कोविड-19 0.85 फीसदी के मुकाबले महामारी के कारण बाजार में मामली घटकर 0.84 फीसदी रह

🔝 PARVATI SWEETNERS AND POWER LIMITED CIN: L15421MP2011PLC027287 | GSTIN: 23AAGCP3350D1ZW

Registered Office: Hall No. 2. Shopping Complex, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk, Bhopal 462003 (MP), Ph. No.: 0755-4236666, 4009254

NOTICE

NOTICE pursuant to Regulation 29(1) (a) read with Regulation 47(1) (a) of SEBI (LODR)

Regulations, 2015 is hereby given that the Meeting of the Board of directors of the

Registered Office of the Company to consider and approve the Standalone Un-Auditer Quarterly Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2021. along with other

ompany will be held on Saturday, the 14th August, 2021 at 03:30 P.M. at the

ers.com

POONAM CHOUKSEY

**MANAGING DIRECTOR** 

Email: info@parvatiswee

2021 में समाप्त वर्ष में में 1,592 फीसदी की बढत दर्ज हुई।

# हिंडाल्को को जिंस में तेजी से दम

देवांशू दत्ता मुंबई, 8 अगस्त

गैर-लौह धातु क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हिंडाल्को ने चाल वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बाजार की उम्मीदों से कहीं आगे निकलते हुए दमदार प्रदर्शन किया है। तिमाही के दौरान कंपनी एबिटा समेकित स्तर पर 6,790 करोड़ रुपये रहा जो तिमाही आधार पर 16 फीसदी और सालाना आधार पर 188 फीसदी अधिक है।

तिमाही के दौरान कंपनी का समेकित करोपरांत लाभ तिमाही आधार पर 45 फीसदी और सालाना आधार पर 493 फीसदी बढ़कर 2,787 करोड़ रुपये हो गया। भारतीय कारोबार के लिए कंपनी का एबिटा मार्जिन 37.5 फीसदी पर पिछले 13 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व बढ़कर 41,358 करोड़ रुपये हो गया जो पिछली तिमाही में 40,507 करोड रुपये और एक साल पहले की समान अवधि में 25,283 करोड रुपये रहा था। जुन 2018 (जब से समेकित आंकड़े उपलब्ध हैं) तिमाही के बाद तीनों मानदंडों पर कंपनी का प्रदर्शन अब तक का बेहतरीन रहा।

नोवेलिस तिमाही का समायोजित एबिटा सालाना आधार पर 119 फीसदी और तिमाही आधार पर 10 फीसदी बढकर 55.5 करोड़ डॉलर हो गया। तिमाही के दौरान नोवेलिस की शुद्ध परिचालन आय सालाना आधार पर 597 फीसदी और तिमाही आधार पर 1,082 फीसदी विस्तार से वाणिज्यिक उत्पादन



बढकर 30.3 करोड डॉलर हो गई। कंपनी के भारतीय परिचालन ने भी एबिटा और करोपरांत लाभ के मोर्चे पर रिकॉर्ड प्रदर्शन किया।

ऋण बनाम एबिटा अनुपात में सुधार होने से बहीखाते को मंजबूती मिली। यह अनुपात जून 2020 में 3.8 गुना की ऊंचाई से सुधरकर 2.36 गुना हो गया। रेटिंग एजेंसियों ने नोवेलिस और हिंडाल्को दोनों के लिए क्रेडिट रेटिंग बढाई है। तिमाही के दौरान सकल ऋण में 16,345 करोड़ रुपये और शुद्ध ऋण में 10,389 करोड़ रुपये की कमी आई।

परिचालन स्थिरता के अलावा वैश्विक स्तर पर धात की कीमतों में तेजी से भी कंपनी के प्रदर्शन को काफी बल मिला। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एल्युमीनियम की कीमतें कई साल को ऊंचाई पर हैं और तांबा के दाम भी कई साल की ऊंचाई के करीब हैं। तिमाही के दौरान इन दोनों धातुओं की प्रति टन प्राप्तियां अधिक रहीं जबकि शिपमेंट (विशेष तौर पर तांबा और एल्युमीनियम के मुल्यवर्द्धित

उत्पादों) और अधिक मुल्य वाले

उत्कल एल्युमिना के क्षमता

दूसरी तिमाही में शुरू होना चाहिए। कंपनी ओडिशा में डाउनस्ट्रीम फ्लैट रोल्ड परियोजना में निवेश कर रही है जहां से उत्पादन 2024-25 में शुरू होगा। बहरहाल, घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में मांग फिलहाल दमदार रहने की उम्मीद है। हालांकि पहली तिमाही के कमजोर आधार का प्रभाव भी मामली रहेगा। कल मिलाकर चाल वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान इन दोनों धातओं की मांग में दो अंकों में वृद्धि दिखनी चाहिए। इसे मुख्य तौर पर वैश्विक वाहन उद्योग में सुधार से रफ्तार मिल

वैश्विक महामारी के जारी रहने और उसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंता बरकरार है। इसके अलावा ईंधन कीमतों में तेजी से भी लागत प्रभावित हो सकती है क्योंकि एल्युमीनियम और तांबा उद्योग में प्रॉसेंसिंग के दौरान काफी ईंधन की जरूरत होती है। यदि वैश्विक स्तर पर वृद्धि प्रभावित हुई तो धात में तेजी का चक्र भावित होगा लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है। मुद्रास्फीति बढते से भारत में मांग प्रभावित हो संकती है।

सकती है।

मौजूदा धातु चक्र चालू वित्त वर्ष में दमदार बने रहने की उम्मीद है और संभवतः कैलेंडर वर्ष 2022 तक यही स्थिति रहेगी। ऐसे में हिंडाल्को उस लहर की लगातार सवारी कर सकती है। कीमतें इसी वित्त वर्ष के दौरान कभी भी अपने उत्पादों का मेल भी अधिक रहा। सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकती हैं जिससे कंपनी को जबरदस्त मुनाफा होने के आसार हैं।

DIN: 02110270 बिज़नेस स्टैंडर्ड भोपाल संस्करण बिजनेस स्टेंडई पाडवेट लिमिटिड के लिए प्रकाशक एवं मढक नंदन सिंह रावत द्वारा भारकर, प्लॉट नं. १० व ११, सेक्टर बी, इंडरिट्रयल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल म.प्र. 462023 से मुद्रित एवं C/o. अशोक कुमार जैन, शॉप नंबर 1, पटेल मार्केट, रांगम टॉकीज के समीप भोपाल -462001 से प्रकाशित संपादकः कैलाश नौटियाल आरएनआई न० WBHIN/2008/24333 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फेक्स- 033-22101599 सबरिक्रप्शन और सर्कूलेशन के लिए कृपया संपर्क करें. सुश्री मानसी सिंह हेड करटमर रिलेशब्स बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013 ई मेल.. subs\_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS डिसक्लेमर.. बिजनेस स्टेंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिजनेस स्टेंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के प्रभाव विश्व जिता का विजयत स्टब्स के किन्द्र है। समाचार पत्र में प्रकाशित दिपोर्टी के कारण वास्तविक घटनाकृम भिल्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित दिपोर्टी के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों वे लिए बिजनेस स्टेंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्ष तिहा विश्वविद्या देख्यके आई जिन्मधारा शेन तिता हो पाउँछा हो देखेंच विश्व दिव पाउँच देखें जिन्म की जाती है। बिजुनेस स्टेंडर्ड ने सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकर किए जाते हैं। इनके साथ बिजुनेस स्टेंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चहिए।

कोई हवाई अधिभार नहीं

तरह का निषिद्ध एवं अनधिकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरु

राषांचरा प्रयत्न ला. प्रयत्न यत्र पंचा द्वावा त्वावारी प्रधानमत्राती हो ता प्रयत्न पाणा पाठिए से मैंगे बिजनेस स्टेंडर्ड प्राण लिए का स्वाधिकार सुरक्षिता है। बिजनेस स्टेंडर्ड प्राण लिए से लिखित अनुमति लिए बजैर् समाचार पत्र में प्रकाशत किसी भी सामुग्री का किसी भी

तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा